



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)

PART II—Section 3—Sub-section (iii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 55]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 29, 2019/चैत्र 8, 1941

No. 55]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 29, 2019/CHAITRA 8, 1941

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 मार्च, 2019

आ.अ. 68(अ).—यतः, जम्मू-कश्मीर राज्य में 1-बारामूला, 2-श्रीनगर और 3-अनंतनाग संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के अनेक निर्वाचक बाध्यकारी परिस्थितियों के कारण दूसरे स्थानों पर प्रव्रजित हो गए थे और अपने सामान्य निवास स्थान से बाहर विभिन्न स्थानों पर अस्थायी रूप से रहते आ रहे हैं; और

यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा, ऐसे प्रवासी निर्वाचकों के मताधिकार को ध्यान में रखते हुए, निदेश दिया गया था कि ये प्रवासी, अपने अस्थायी प्रवास के बावजूद, संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों में अपने नामों के समावेशन/प्रतिधारण के लिए अपने संबंधित स्थानों के सामान्य निवासियों के रूप में माने जाते रहेंगे और इसलिए, उनके नामों को 01.01.2019 की अर्हक तारीख के संदर्भ में संक्षिप्त रूप से पुनरीक्षित उक्त निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों में शामिल किए जाने की अनुमति प्रदान की गई थी;

अब, इसलिए, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 14 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा जारी की जाने वाली अधिसूचनाओं के अनुसरण में, वर्ष 2019 में आयोजित किए जाने वाले लोक सभा के साधारण निर्वाचन में मतदान में वोट देने के प्रयोजनार्थ, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 60(ग) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार से परामर्श करने के पश्चात्, 1-बारामूला, 2-श्रीनगर और 3-अनंतनाग संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में से किसी में भी नामांकित पूर्वोक्त ऐसे प्रवासी निर्वाचकों को, जो अपने निवास स्थान से बाहर रह रहे हैं लेकिन उनसे इतर जिन्हें उक्त अधिनियम की धारा 25 के अंतर्गत व्यक्तियों की विनिर्दिष्ट श्रेणी के रूप में अधिसूचित किया गया है, उक्त अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं को पूरा किए जाने की शर्त के अधीन, डाक मतपत्र के द्वारा अपने मत देने वाले व्यक्तियों की श्रेणी के रूप में एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है।

[सं. 3/जम्मू-कश्मीर/2019(एन)]

आदेश से,

स्टैंडहोप युहलुंग, प्रधान सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA**NOTIFICATION**

New Delhi, the 25th March, 2019

O.N. 68 (E).— WHEREAS, a number of electors of 1-Baramulla, 2-Srinagar and 3-Anantnag Parliamentary Constituencies in the State of Jammu and Kashmir had migrated because of compelling circumstances and have been temporarily residing in various places outside their place of ordinary residence; and

WHEREAS, the Election Commission of India, having regard to the right of franchise of such migrant electors, directed that these migrants shall continue to be treated as ordinary residents of their respective places, for inclusion/retention of their names in the electoral roll of the constituency concerned, despite their temporary migration and as such their names were allowed to be included in the electoral rolls of the said constituencies summarily revised w.r.t. 1.1.2019 as the qualifying date;

NOW, THEREFORE, the Election Commission of India, in exercise of powers conferred by Section 60 (c) of the Representation of the People Act, 1951, for the purposes of giving votes at the poll in the General Election to the House of the People, to be held in the year 2019, in pursuance of the notifications to be issued by the President under Section 14 of the Representation of the People Act, 1951, hereby notifies after consultation with the Central Government, the aforesaid migrant electors enrolled in any of the Parliamentary Constituencies of 1-Baramulla, 2-Srinagar and 3-Anantnag, who are residing outside their place of residence, but other than those who have been notified under section 25 of the said Act to vote in person, as the class of persons to give their votes by postal ballot, subject to the fulfillment of the requirements specified in the rules made under the said Act.

[No. 3/J&K/2019(N)]

By Order,

STANDHOPE YUHLUNG, Principal Secy.